

JAY BHARAT MARUTI LIMITED

Corporate Office: Plot No. 9, Institutional Area,

Sector 44, Gurgaon-122 003 (Hr.) T:+91 124 4674500, 4674550

F: +91 124 4674599 W: www.jbmgroup.com

JBML/SE/Q1/2025-26

May 23, 2025

National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, Plot C-1, Block G Bandra Kurla Complex, Bandra (E),

Mumbai - 400 051

BSE Limited 25th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street,

Mumbai - 400 001

Scrip Code: JAYBARMARU Scrip Code: 520066

Sub: Submission of Newspaper Advertisements under Regulation 47 read with Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sir/Madam,

Pursuant to the provisions of Regulation 47 read with Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copies of the newspaper advertisements of Business Standard (Hindi) and Business Standard (English) dated May 23, 2025 for the publication Audited Financial Results (Standalone & Consolidated) of the Company for 4th quarter and financial year ended March 31, 2025 as approved by the Board of Directors in its meeting held on May 22, 2025.

This is for your information and record please.

Thanking you,

For Jay Bharat Maruti Limited

Shubha Singh Company Secretary ICSI M. No. A16735

Encl.: As stated above

Aadhar Housing Finance Ltd.

Corporate Office: Unit No.802, Natraj Rustomjee, Western Express Highway and M.V.Road, Andheri (East), Mumbai-400069 Bareilly Branch - B3&B-4, Ground Floor, Akash Floors, 320-Civil Lines, City Station Road, Bareily-243001 (UP) District - Bareilly



E- AUCTION – SALE NOTICE

E-Auction Sale Notice for Sale of immovable Properties under the Securitization and Reconstruction of Financial Asset and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8 (6) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s) and Guarantor (s) that the below described immovable property mortgaged, possession of which has been taken by the Authorised Officer of Aadhar Housing Finance Limited will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" with no known encumbrances Particulars of which are given below

	, and that the time to the ment of the time the								
S. No.	Borrower(s) / Co-Borrower(s)/ Guarantor(s)	Demand Notice Date & Amount	Description of the Immovable property	Reserve Price (RP)	EMD (10% of RP)	Nature of possession			
1	(Loan Code No. 02600000266/ Bareilly Branch) Suman Devi (Borrower) Lakhan S/o Ramkishor Lal (Co-Borrower) Saurabh S/o Ram Gopal (Guarantor)	22-06-2017 & ₹ 2,96,666/-	All that piece and parcel of property bearing, House On Part of Khasra No.480., Kargaina, Opp Fibre Factory Badaun Road, Near Bda Colony, Bareilly, Bareilly, Uttar Pradesh-243001 Boundaries : East- Plot Hareesh Sagar, West- Plot of Pal Sahab, North- Arazi Ramdhun, South-12 Feet Wide Rasta	₹ 9,51,360/-	₹ 95,136/-	Physical			

- 1. Last Date of Submission of DD of Earnest Money Deposit along with KYC, Tender Form and accepted Terms and conditions (Tender Documents) is 21-06-2025 within 5:00 PM at the Branch Office address mentioned herein above or uploaded on https://bankeauctions.com. Tenders documents received beyond last date will be considered as invalid tender and shall accordingly be rejected. No interest shall be paid on the EMD.
- 2. Date of Opening of the Bid/Offer (Auction Date) for Property is 23-06-2025 on https://bankeauctions.com at 03:00 PM to 04:00 PM
- 3. AHFL is not responsible for any liabilities whatsoever pending upon the property as mentioned above. The Property shall be auctioned on 'As is Where Is Basis', 'As is What Is Basis' and 'Whatever Is There Is Basis'
- 4. The Demand Draft Should be made in favor of 'Aadhar Housing Finance Limited' Only.
- 5. Auction/bidding shall be only through "Online Electronic Bidding" through the website https://bankeauctions.com. Bidders are advised to go through the website for detailed terms before taking part in the e-auction sale proceedings.
- 6. The intending bidders should register their names at portal M/s C 1 INDIA PVT LTD through the link https://bankeauctions.com/registration/signup, and get their User ID and password free of cost. Prospective bidder may avail online training on E- auction from the service provider M/s C 1 INDIA PVT LTD through the website https://bankeauctions.com
- 7. For further details contact Authorised Officer of Aadhar Housing Finance Limited, Dilip Singh Jadon Contact No. 8319021816, OR the service provider M/s C1 INDIA PVT LTD, Mr. Prabhakaran, Mobile No: +91-74182-81709, E-mail:tn@c1india.com & support@bankeauctions.com, Phone No. +917291981124 /25 /26. As on date, there is no order restraining and/or court injunction AHFL/the authorized Officer of AHFL from selling, alienating and/or disposing of the above immovable properties/secured assets
- 8. For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in Aadhar Housing Finance Limited (AHFL), secured creditor's website i.e www.aadharhousing.com.
- The Bid incremental amount for auction is Rs.10,000/-.

Place: Uttar Pradesh Date: 23-05-2025

Sd/- Authorised Officer **Aadhar Housing Finance Limited**



JAY BHARAT MARUTI LIMITED

Regd. Office: Pace City II, Mohammadpur Jharsa Near Khandsa Village, Sector -36 Gurugram, Haryana- 122001 Phone No.: 011-26427104; Fax: 011-26427100 Website: www.jbmgroup.com CIN No.: L29130HR1987PLC130020

STATEMENT OF UNAUDITED RESULTS FOR THE QUARTER AND AUDITED RESULTS FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2025

	Particulare		STANDALONE		CONSOLIDATED		
Sr. No.			Twelve Months Ended 31/03/2025	Quarter Ended 31/03/2024	Quarter Ended 31/03/2025	Twelve Months Ended 31/03/2025	Quarter Ended 31/03/2024
L		UNAUDITED	AUDITED	UNAUDITED	UNAUDITED	AUDITED	UNAUDITED
1.	Total Income from operations	61,128.57	2,29,295.46	60,009.17	61,128.57	2,29,295.46	60,009.17
2.	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or						
	Extraordinary items)	2,914.25	4,749.58	1,523.34	3,046.27	4,906.09	1,538.52
3.	Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional						
	and/or Extraordinary items)	2,914.25	4,749.58	1,523.34	3,046.27	4,906.09	1,538.52
4.	Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional						
	and/or Extraordinary items)	1,960.25	3,179.61	1,112.03	2,056.17	3,291.27	1,122.81
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit /						
	(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive						
	Income (after Tax)]	2,072.29	3,039.03	1,481.45	2,165.90	3,149.47	1,491.99
6.	Equity share capital	2,165.00	2,165.00	2,165.00	2,165.00	2,165.00	2,165.00
7.	Reserves as shown in the Audited Balance Sheet	53,754.67	53,754.67	51,473.39	54,096.68	54,096.68	51,704.96
8	Earning per Share (of Rs. 2/- each) (not annualised)						
	(For continuing and discontinued operations)- Refer Note (c)						
	a) Basic	1.81	2.94	1.03	1.90	3.04	1.04
	b) Diluted	1.81	2.94	1.03	1.90	3.04	1.04

- a) The above is an extract of the detailed format of the Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter and Year ended March 31, 2025 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter and Year ended 31th March, 2025 are available on the websites of NSE and BSE at www.nseindia.com and www.bseindia.com, and on the Company's website at www.ibmgroup.com
- o) The Board at its meeting held on May 22,2025 has recommended a dividend @ 35% i.e.Rs 0.70 per share (on fully paid up equity share of Rs. 2/- each) for the year ended March 31 2025
- c) The Board of Directors of the Company in their meeting held on August 8, 2023 recommended the sub-division of existing equity share having face value of Rs. 5/- each fully paid up into equity share having face value of Rs. 2/- each fully paid up. The above sub-division has been approved by the shareholders of the Company in their annual general meeting held on September 16, 2023. Pursuant to split of shares the equity shares of the Company is increased from 4,33,00,000/- equity shares to 10.82,50,000/- equity shares of face value Rs 2/- each. The basic and diluted EPS for the prior periods of standalone and consolidated financial statements have been restated considering the face value of Rs. 2/- each in accordance with Ind AS 33 "Earning per Share".

Scan the QR Code to view the results

By Order of the Board Sd/-S.K. ARYA CHAIRMAN

Place :- Gurugram Dated :- May 22, 2025

GOVERNMENT OF MEGHALAYA DEEN DAYAL UPADHYAYA GRAMEEN KAUSHALYA YOJANA Under Community & Rural Development Department SIRD Campus, Nongsder, Ri-Bhoi District, Meghalaya – 793 103 Email: ddugkymegha@gmail.com

Expression of Interest

Expression of Interest (EOI) is hereby invited for Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalaya Yojana (DDU-GKY), Meghalaya from interested eligible / registered Agencies to become Project Implementing Agencies (PIAs) under DDU-GKY 2.0 to train and place the rural poor unemployed youth of Meghalaya. The details of the Invitation for EOI is available at https://kaushal.rural.gov.in https://www.megcnrd.gov.in and https://www.megsird.gov.in.

Dated: 22-05-2025

State Programme Director DDU-GKY, Meghalaya



SHIVA MILLS LIMITED

Regd. Office: 249 A, Bye-Pass Road, Mettupalayam Road, Coimbatore 641 043 CIN: L17111TZ2015PLC022007 Website: www.shivamills.com

EXTRACT OF THE DETAILED FORMAT OF QUARTERLY / YEARLY AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31.03.2025 FILED WITH STOCK EXCHANGES UNDER REGULATION 33 OF SEBI (LISTING OBLIGATIONS AND DISCLOSURE REQUIREMENTS)

		REGULATIO	NS 2015.	(Rs	in lakhs Except	per share data)
SI. No.	PARTICULARS	Quarter ended 31.03.2025 (Audited)	Quarter ended 31.12.2024 (Unaudited)	Quarter ended 31.03.2024 (Audited)	Year ended ended 31.03.2025 (Audited)	Year ended ended 31.03.2024 (Audited)
1.	Total Income from Operations	4,154.77	3,654.34	4,774.86	17,091.62	15,881.54
2.	Net Profit / (Loss) for the period before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items	(86.96)	(151.16)	35.19	(424.73)	(393.02)
3.	Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	(86.96)	(151.16)	35.19	(424.73)	(393.02)
4.	Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(76.83)	(146.97)	44.72	(381.12)	(324.91)
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/ (Loss) for the period (after Tax) and other Comprehensive Income (after Tax)	(49.34)	(154.96)	(22.86)	(377.59)	(367.62)
6.	Equity Share Capital	864.18	864.18	864.18	864.18	864.18
7.	Reserves (Excluding Revaluation Reserves as shown in the audited balance sheet)				8,376.59	8,754.18
8.	Earnings per Share (of Rs.10 each) (for continuing and discontinued operations) i) Basic ii) Diluted	(0.89) (0.89)	(1.70) (1.70)	0.52 0.52	(4.41) (4.41)	(3.76) (3.76)

Notes: 1) The full format of the quarterly financial results are available on the Stock Exchanges websites www.bseindia.com www.nseindia.com and Company's website www.shivamills.com; 2) Previous period/year figures have been regrouped whereve necessary.

PLACE: COIMBATORE DATE : 22ND MAY 2025



Scan this QR code

FOR SHIVA MILLS LIMITED S V ALAGAPPAN MANAGING DIRECTOR DIN 00002450

FORM NO. RSC-4 [Pursuant to Rule 3(3)] BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL, CHANDIGARH BENCH COMPANY PETITION NO. 15 OF 2025 IN THE MATTER OF COMPANIES ACT, 2013.

AND IN THE MATTER OF SECTION 66 OF THE COMPANIES ACT, 2013 READ WITH THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL (PROCEDURE FOR REDUCTION OF SHARE CAPITAL OF THE

COMPANY) RULES, 2016.

AND
IN THE MATTER OF REDUCTION OF EQUITY SHARE CAPITAL OF COMVIVA TECHNOLOGIES LIMITED

Comviva Technologies Limited ... Petitioner Company A Company registered under the provisions of the Companies Act, 1956, having its registered office at: 5th, 7th & 8th Floor, Capital Cyberspace, Sector 59, Golf Course Extension Road, Gurugram – 122102, Haryana, India. CIN: U72200HR1999PLC041214

PUBLICATION OF NOTICE

Notice may be taken that an application/petition was presented to the National Company Law Tribunal at Chandigarh (Bench), on the 2nd April, 2025, and an order for admission was passed on 14th May, 2025 which was received on 19th May, 2025 for confirmin the reduction of the share capital of the above Petitioner Compan from Rs. 24,34,31,880/- (Rupees Twenty-Four Crores Thirty-Fou Lakhs Thirty-One Thousand Eight Hundred and Eighty only consisting of 2,43,43,188 (Two Crores Forty-Three Lakhs Forty Three Thousand One Hundred and Eighty-Eight) fully paid-up equity shares of Rs. 10 (Rupees Ten) each, to Rs. 24,34,11,390/- (Rupee Twenty-Four Crores Thirty-Four Lakhs Eleven Thousand Three Hundred and Ninety only) comprising of 2,43,41,139 (Two Crores Forty-Three Lakhs Forty-One Thousand One Hundred and Thirty Nine) fully paid-up Equity Shares of Rs. 10 (Rupees Ten) each by cancelling and extinguishing 0.0084% of the total issued subscribed and paid-up equity share capital of the Petitione Company comprising 2,049 (Two Thousand and Forty-Nine) fully paid-up equity shares of Rs. 10 (Rupees Ten) each aggregating t Rs. 20,490/- (Rupees Twenty Thousand Four Hundred and Ninet only) ("Identified Shares") held by 10 (Ten) Non-Promoter Individua Public Shareholders ("Identified Shareholders") pursuant to Section 66 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act

The notice to individual creditors has been issued by the Petition Company. The list of creditors prepared on the 28th February, 2029 by the Petitioner Company is available at the Registered Office of the Petitioner Company for inspection on all working days during 1 A.M. to 5 P.M. between 20th May, 2025 and 20th August, 2025.

If any creditor of the Petitioner Company has any objection to the application/petition or the details in the list of creditors, the same may be sent (along with supporting documents) and details about his / her name and address and the name and address of hi Authorised Representative, if any, to the undersigned at 5th, 7th & 8th Floor, Capital Cyberspace, Sector 59, Golf Course Extension Road, Gurugram – 122102, Haryana, India or to Advocates of the Petitioner Company at 201-206. Shiy Smriti Chambers, 2nd Floo 49A, Dr. Annie Besant Road, Above Corporation Bank, Worl Mumbai - 400018 within three months of date of this notice.

If no objection is received within the time stated above, entries in the ist of creditors will, in all the proceedings under the abov application/petition to reduce the share capital of the Petitions Company, be treated as correct.

f may also be noted that a hearing has been fixed for 25th August

2025 on which date the Tribunal shall hear the application/petition. In

case any creditor intends to attend the hearing he/she should make request along with his objections, if any. Adv. Shivani Patil Advocates for the Petitioner Company Dated: 22nd day of May 2025.

Place: Mumbai

Government of Kerala

Published Tenders from 19-05-2025 to 21-05-2025 Department of Agricultur

Tender ID: 2025 AGRI 765246 1 * Deputy Director * Procurement of Atomic Absorption Spectrophotometer * Closing Date: 12-Jun-2025 * PAC: Rs2000000

Ground Water Department

Tender ID: 2025 GWD 755087 2 * Director * Retender for Supply of thoroughly sieved 320 tonnes of Grave * Closing Date: 11-Jun-2025 * PAC: Rs3360000 Stationery Departme

Tender ID: 2025_STY_765366_1 * Stationery Controller * Supply of Maplitho Paper 80 gsm RA1 (61x86cm) * Closing Date: 07-Jun-2025 * PAC: Rs4070000

Tender ID: 2025_STY_765247_1 * Stationery Controller * Supply of Maplitho Paper 60 gsm RA1 * Closing Date: 05un-2025 * PAC: Rs4100000

Tender ID: 2025 STY 765644 1 * Stationery Controller * Supply of Ribbed Kraft Paper 140 GSM RA1 * Closing Date: 09-Jun-2025 * PAC: Rs2333000

Tender ID: 2025_STY_765388_1 * Stationery Controller * Supply of Cheque Paper 80 gsm RA1 (61x86cm) * Closing Date: 07-Jun-2025 * PAC: Rs4800000

Tender ID: 2025 STY 765339 1 * Stationery Controller * Supply of White Offset Printing Paper 75 gsm RA1 * Closing Date: 04-Jun-2025 * PAC: Rs4800000

https://etenders.kerala.gov.in for more details.

Ro.No:19-21/May/2025/PRD/(N)7

Govt. of Jharkhand ROAD CONSTRUCTION DEPARTMENT Road Divison , Seraikella-Kharsawan

e-Procurement Notice

Tender Reference No.RCD/SERAIKELLA/04 Date :- 21.05.2025 Improvement of Riding Quality work

1.	Name of the work	of Kharsawan-Chakradharpur Road from Km 16.196 to Km 28.525 (Total Length : 12.33 Km) for the year 2025-26
2.	Estimated Cost (Rs.)	Rs. 12,28,89,465.00 (Rupees Twelve Crore Twenty Eight lakh Eighty Nine thousand Four Hundred Sixty Five only)
3.	Cost of BoQ (Rs.)	Rs. 10,000.00 (Rupees Ten Thousand Only)
4.	Earnest Money (Rs.)	Rs. 12,29,000.00 (Rupees Twelve Lakh Twenty Nine Thousand Only)
5.	Time of Completion	05 (Five) Months
6.	Last Date /Time for receipt of bids	18.06.2025 (12.00 Noon)
7.	Date of Publication of Tender on website	29.05.2025 (10.30 AM)
8.	Name & Address of office Inviting tender	Ashok Kumar Rajak O/o Executive Engineer , Road Construction Department , Road Division , Seraikella-Kharsawan
9.	Contact no. of Procurement Officer	9199867872
10.	Helpline number of e- Procurement cell	0651-2401010
E - 42	· 10 · 15 · · 14	1 1

Estimated Cost and Earnest Money can be increase or decrease Further details can be seen on website http://jharkhandtenders.gov.in Executive Engineer

PR 353255 Road(25-26).D

RCD, Road Division Seraikella-harsawan

पंजाब नैशनल बेंक 🔘 punjab national bank

It is notified to the general public that in respect of the property, i.e. our original sale deed dated 26.05.1992 executed by Shri Gajju son of Shri Sher Singh himself and as general attorney Shri Indra Singh and Shri Mandar Singh and Shri Tilak Ram sons of Shri Sher Singh through Shri Jai Prakash Agarwal son of Shri Dhan Prakash Agarwal in favour of Shri Ashok Kumar son of Shri Harnarayan, Plot No. B-3, Khata Khatauni No. 00032, Part of Khasra No. 602 & 600, Near Bharat Petroleum, Village: Baral Partapur, Meerut Bypass Road, Meerut which is registered on 03.07.1992 at serial number 4220 on pages 47 to 72 of book number 1 volume 546, has been lost somewhere while returning home after getting it photostated. It could not be found ven after much search. If the above original documents are in the possession of any oank or financial institution or if anyone has any objection in respect of it, please inform the said bank at Branch Office: Punjab National Bank, Branch MCC-1, Meerut, First Floor Mangal Pandey Nagar, Meerut within 07 days from the publication of this notice. After the stipulated period, the said property shall be mortgaged to Punjab Nationa MCC -1 Meerut 1st Floor Mangal Pandey Nagar Punjab National Bank

Bank of Baroda

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Adarsh Nagar Branch, 5/495, Gali No.5, Raja Park Adarsh Nagar Jaipur-302004 Phone 0141-2621893, 2620348,2623659 Email: adarsh@bankofbaroda.com

POSSESSION NOTICE (For Immovable property) (As per Appendix IV read with rule 8(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002) Whereas, The undersigned being the Authorised Officer of the Bank of Baroda under the curitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Ac Securitzation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a Demand Notice dated 01/03/2025, calling upon the Borrower Mr. Ram Avtar Vijay and Mrs Rekha Vijay and guarantor Mr. Mahendra Kumar sethi to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 9,33,136.76 (Rupees Nine Lakhs Ninety Three Thousand One Hundred Thirty Five and Seventy Six Paise

Only) as on 28/02/2025 together with further interest thereon at the contractual rate plus costs, charges and expenses - within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The Borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower and the Public in general that the undersigned has taken symbolic possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under sub-section (4) of section 13 of the Act read with Rule 8 of the Security Interest Enforcement Rules, 2002 on this the 17th

day of May of the year 2025. usy of may of the year 2023.

The Borrower/Guarantors/Mortgagors in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property/ses will be subject to the charge of Bank of Baroda for an amount of Rs. 9, 93, 135. 76 (Rupees Nine Lakhs Ninety Three Thousand One Hundred Thirty Five and Seventy Six Paise Only) as on 28/02/2025 and further interest thereon at the contractual rate plus costs, charges and expenses. The Borrower's attention is invited to provision of sub-section (8) of section 13 of the Act, i

respect of time available, to redeem the secured assets. DESCRIPTION OF IMMOVABLE PROPERTY

Equitable Mortgage of Residential Property located at Plot No.A-39, Vaishali Nagar hehind National Handloom, Jainur, Rajasthan 302021 in the name of Mr. Ram Avta Vijay and Mrs. Rekha Vijay. Bounded by:- East: 30 Feet Road, West: Other Land North: Plot No A-38, South: Plot No A-40

Date: 17.05.2025, Place: Jaipur Authorized Officer, Bank of Baroda

Rajendra Nagar, Bharatpur Branch Address- Super Market, Bharatpur (Raj), pincode-321001 punjab national bank NOTICE NOTICE u/s SECTION 13(2) OF SECURITIZATION ACT OF 2002

A notice is hereby given that the following Borrower/s Chetan loknathka (Borrower), and Raksha Sharma (borrower) have defaulted in the repayment of principal and interest of the loans facility obtained by them from the Bank and the loans have been classified as Non Performing Assets (NPA) on 28.02.2025. The notices were issued to them under Section 13(2) of Securitization and Re-construction of Financial Assets and Enforcement of Security nterest Act 2002 on 24.03.2025 on their last known addresses, but they have been returned unserved and as such they are hereby informed by way of this public notice.

S. No.	Name of the Borrower	Details of Properties/ Address of Secured Assets to be Enforced	Date of Notice		Amount outstanding (As or the date of notice)
1.	Mr. Chetan loknathka s/o Sh Maliram Loknathka and Smt Raksha	Rs. 4953861/- as on 27.02.2025 and further interest and charges.			
	Sharma w/o Sh 0				

The above Borrower(s) and /or their Guarantor(s) (whenever applicable) are hereby called upon to make payment of outstanding amount within 60 days from the date of publication of this notice, failing which further steps will be taken after expiry of 60 days from the date of this notice under sub-section (4) of Section 13 of Securitization and Reconstruction o

inancial Assets and Enforcement of Security interest Act. 2002 The borrowers attention is invited to provisions of Sub-section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured assets. **Authorised Officer** Date: 20.05.2025 Place: Bharatpur Punjab National Bank

PUBLIC NOTICE FOR

Registered Office at: - Shivalik Small Finance Bank Ltd.501, Salcon Aurum, Jasola district Centre, New Delhi, South Delhi, Delhi -110025 & Branch Office at Shivalik Small Finance Bank Ltd., Noida Sector 135 Uttar Pradesh 201301

SHIVALIK SMALL FINANCE BANK LTD.

AUCTION CUM SALE NOTICE FOR SALE OF MMOVABLE PROPERTIES

Appendix - IV-A [See Proviso to rule 8 (6)] Open Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security

Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the Secured Creditor, the constructive possession of which has been taken by the Authorized Officer of Shivalik Small Finance Bank Ltd., the Secured Creditor, will be sold "As is Where is", As is What is" and Whatever there is" on 27th June 2025 for recovery of Rs. 1,00,000/- (Rupees One Lakh Only) As on 23-12-2024 plus interest & charges thereafter due to the Shivalik Small Finance Bank Ltd. secured creditor from 1. Kalu S/o Sh. Shankar R/o H.No 56, Village Bahlolpur Sector 65, Noida Gautam Buddha NagarUttar Pradesh 201304, 2. Mr. Subhash Chand S/o Mr. Vijaypal (Co- Borrower) R/o H.No. 56, Village Bahlolpur Sector 65, Noida Gautam Buddha Nagar Uttar Pradesh 201304, 3. Mrs. Asha W/o Mr. Subhash Chand (Mortgagor/Guarantor) R/o H.No. 07, Village Bahlolpur Sector 65, Noida Gautam Buddha Nagar Uttar Pradesh 201304, 4, Mrs. Suman W/o Sh. Shankar (Mortgagor/Guarantor)R/o H.No. 56, Village Bahlolpur Sector 65, Noida Gautam Buddha Nagar Uttar Pradesh 201304

The reserve price will Rs. 28,64,640/- (Rupees Twenty Eight Lakhs Sixty Four Thousand Six Hundred and Forty Only) and the earnest money deposit will be 10% of Bid Amount i.e. Rs. 2,86,464/- (Rupees Two Lakh Eighty Six Thousand Four Hundred and Sixty Four Only) the latter amount to be deposited with the Bank on or before 26-06-2025 by 5 PM. particulars of which are given below: -

Name of the Borrower(s) / Guarantor(s)	Demand Notice Date and Outstanding Amount as per Demand Notice	Description of the Immovable properties	Reserve Price	Earnest Money Deposit (EMD)
 Kalu S/o Sh. Shankar (Borrower) R/o H.No 56, Village Bahlolpur Sector 65, Noida Gautam Buddha Nagar Uttar 		All the piece and parcel of the immovable property: Residential Plot, measuring an	Rs. 28.64.640/-	10% of Reserve Price
Pradesh 201304, 2.Mr. Subhash Chand S/o Mr. Vijaypal (Co- Borrower) R/o H.No. 56. Village Bahlolpur Sector	(Rupees One Lakh	area 58.52 sqmtr, situated at Khasra No. 230 & 231/2 Village Behlolpur Paragana	(Rupees Twenty	Rs. 2,86,464/- (Rupees Two
65, Noida Gautam Buddha Nagar Uttar Pradesh 201304, 3.Mrs. Asha W/o Mr. Subhash Chand (Mortgagor/	· "	and Tehsil Dadri District Gautam Buddha Nagar Uttar Pradesh, Registered in	Eight Lakhs	Lakh Eighty Six Thousand
Guarantor) R/o H.No. 07, Village Bahlolpur Sector 65, Noida Gautam Buddha Nagar Uttar Pradesh 201304,		revenue records of Bahi No. 1, Jild No. 3006, Serial No. 610 Page No. 203-216	Sixty Four Thousand Six	Four Hundred and Sixty Four
4.Mrs. Suman W/o Sh. Shankar (Mortgagor/		Dated 21-01-2011 Property registered in	Hundred	Only)
Guarantor) R/o H.No. 56, Village Bahlolpur Sector 65, Noida Gautam Buddha Nagar Uttar Pradesh 201304 (Loan Account No. 101641003995, 101646510323)		the name of Mrs. Asha W/o Mr. Subhash Chand and Mrs. Suman W/o Sh. Shankar	and Forty Only)	
Date of Inspection of Immovable properties:-25th Jul	ne 20251100 hrs	– 1500 hrs		

Auction Date and time of opening of Bid:- 27th June 2025 from 10:00 hrs to 12:00 hrs

Last Date for Submission of Offers / EMD:- 26th June 2025 till 5.00 pm.

For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in Shivalik Small Finance Bank, the Secured Creditor's website nttps://shivalikbank.com/auction_of_bank_properties.php mportant Terms & Conditions of Sale:

- (1) The property is being sold on "as is where is, whatever there and without recourse basis as such sale is without any warranties and indemnities.
- (2) The property/documents can be inspected on the above given date and time with the Authorised Officer of the Bank (3) Bid document/Form containing all the general terms and conditions of sale can be obtained from Authorised Officer on any working day during office
- hours at Bank's Branch Office mentioned herein above. The intending bidders should send their sealed bids on the prescribed Bid Form to Be Authorised
- (4) Bid to be submitted in sealed envelope mentioning the Bid for Auction property and accompanied with EMD (being 10% of the Bid Amount) by Demand Draft drawn in favour of "Shivalik Small Finance Bank Ltd", payable at Noida on or before 26th June 2025 till 5.00 p.m. at the above-mentioned Branch office of Bank. Bids that are not filled up or Bids received beyond last date and time will be considered as invalid Bid and shall accordingly be rejected. No
- interest shall be paid on the EMD. Once the bid is submitted by the Bidder, the same cannot be withdrawn. (5) The sealed bids will be opened on 27th June 2025 at 10:00-12:00 hrs. at the above-mentioned Branch Office of Bank in the presence of the bidders present at that time and thereafter the eligible bidders may be given an opportunity at the discretion of the Authorised officer to participate in inter-se bidding to enhance the offer price.
- (6) The bid price to be submitted shall be above the Reserve Price and the bidder shall further improve their offer in multiple of Rs.50.000/-. The property will not be sold below the Reserve Price set by the Authorised Officer.
- The successful bidder is required to deposit 25% of the sale price (inclusive of EMD) immediately not later than next working day by Demand Draft drawn in favour of Shivalik Small Finance Bank Ltd, payable at NOIDA and the balance amount of sale price shall be paid by the successful bidder within 15 days from the date of confirmation of sale by Bank. The EMD as well as Sale Price paid by the interested bidders shall carry no interest. The deposit of EMD or 25%, whatever the case may be, shall be forfeited by the Bank, if the successful bidder fails to adhere to the terms of sale or commits any default.
- Bank does not take any responsibility to procure any permission/NOC from any Authority or under any other law in force in respect of property offered or any other dues i.e., outstanding water/electric dues, property tax, Municipal/ Panchayat taxes or other charges if any. (9) The successful bidder shall bear all expenses including pending dues of any Development Authority if any/taxes/utility bills etc. to Municipal Corporation
- or any other authority/agency and fees payable for stamp duty/registration fee etc. for registration of the 'Sale Certificate'. 10) The Authorised Officer reserves the absolute right and discretion to accept or reject any or all the offers/bids or adjourn/cancel the sale without assigning
- any reason or modify any terms of sale without any prior notice. Bids once made shall not be cancelled or withdrawn.
- 12) To the best of its knowledge and information, the Bank is not aware of any encumbrances on the property to be sold except of Bank. Interested parties should make their own assessment of the property to their satisfaction. Bank does not in any way guarantee or makes any representation about the fitness/title of the aforesaid property. For any other information, the Authorised Officer shall not be held responsible for any charge, lien, encumbrances property tax or any other dues to the Government or anybody in respect to the aforesaid property. The notice is hereby given to the Borrower (s) Mortgager(s)/ Guarantor(s), to remain present personally at the time of sale and they can bring the intending buyers/purchasers for purchasing the immovable property as described herein above, as per the particulars of Terms and Conditions of Sale.
- 13) The immovable property will be sold to the highest bidder. However, the undersigned reserves the absolute discretion to allow inter se bidding, if deemed necessary.
- 4) Bank is not responsible for any liabilities upon the property which is not in the knowledge of the Bank.
- 15) The Borrower (s) / Mortgager(s) / Guarantor(s) are hereby given STATUTORY 30 DAYS NOTICE UNDER RULE 8(6) OF THE SARFAESI ACT, published in Hindi & English Edition in Newspaper, to discharge the liability in full and pay the dues as mentioned above along with up-to-date interest and expenses within Thirty days from the date of this notice failing which the Secured Asset will be sold as per the terms and conditions mentioned above. In case there is any discrepancy between the publications of sale notice in English and Vernacular newspaper, then in such case the English newspaper will supersede the vernacular newspaper and it shall be considered as the final copy, thus removing the ambiguity. If the borrower/guarantors/mortgagers pay the amount due to Bank, in full before the date of sale, auction is liable to be stopped. However, in such cases, Further interest will be charged as applicable, as per the Loan documents on the amount outstanding in the notice and incidental expenses, costs, etc., is due and payable till its realization.
- (16) The decision of the authorized officer is final binding and un-questionable. All bidders who submitted the bid shall be deemed to have read and understood the terms and condition of auction sale and be bound by them.
- 17) For details, help, procedure and biding prospective bidders may contact. Mr. Siddharth Sinha, Contact No. 9811864937.
- . Please note that the secured creditor, the Bank is going to issue sale notice to all the Borrower/Co-Borrowers/Guarantors/Mortgagors by POST by thei addresses. In case, the same is not received by any of the parties, then this publication of sale notice may be treated as substituted mode of service.


 The Borrower/Co-Borrowers/Guarantors/Mortgagors are also hereby informed that he/they must take delivery of their household effects, lying inside the above premises/under the custody of the Bank, if any within 15 days of this publication, with prior permission, failing which the Bank shall have no
- liability/responsibility to the same and will dispose of at the Borrower/Co-Borrowers/Guarantors/Mortgagors risk and adjust the sale proceed towards dues 8. If the Auction fails due to any reasons whatsoever, the Company would at liberty to sell the above mortgaged properties through private treaty as pe
 - provisions mandated under SARFAESI Act, 2002.

Date:21-05-2025 Place: Noida Authorised Officer, Shivalik Small Finance Bank Ltd.

Public Notice



Fostering Innovation and Growth



EXTRACT OF CONSOLIDATED AND STANDALONE AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31 MARCH 2025

(₹ in lakhs, except earning per share)

	l .					(* iii lakiis, except earling per share)				
		Consolidated				Standalone				
SI.		Quarter	ended	Year e	ended	Quarte	r ended	Year	ended	
No.	Particulars	31 March 2025	31 March 2024	31 March 2025	31 March 2024	31 March 2025	31 March 2024	31 March 2025	31 March 2024	
		Audited	Audited	Audited	Audited	Audited	Audited	Audited	Audited	
1	Revenue from Operations	1,01,408.48	91,783.38	3,88,450.22	3,52,110.79	75,862.27	69,304.98	2,91,303.56	2,71,566.55	
2	Net Profit for the period (before tax, exceptional item and share of profit in joint ventures)	5,055.23	4,400.30	17,257.79	14,626.06	5,014.24	4,491.88	18,309.95	15,987.98	
3	Net Profit for the period (before tax after exceptional item and share of profit in joint ventures)	5,555.27	4,640.58	18,459.36	15,020.62	5,318.57	3,935.93	18,614.28	15,432.03	
4	Net Profit for the period (after tax, exceptional item and share of profit in joint ventures)	4,261.16	3,586.37	14,164.24	11,026.10	4,300.83	2,732.09	13,962.71	11,225.12	
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit for the Period after Tax and Other Comprehensive Income/(Loss) after Tax)	4,447.47	3,453.86	14,227.13	11,169.50	4,286.48	2,860.65	13,847.64	11,384.36	
6	Equity Share Capital	6,019.07	6,019.07	6,019.07	6,019.07	6,019.07	6,019.07	6,019.07	6,019.07	
7	Total Reserves			1,07,911.05	95,640.12			1,08,636.24	96,744.80	
8	Earnings Per Share (Face value of ₹ 10/- per share) (not annualised for quarter)									
	1. Basic:	7.08	5.96	23.53	18.32	7.15	4.54	23.20	18.65	
	2. Diluted:	7.08	5.96	23.53	18.32	7.15	4.54	23.20	18.65	

a) The above is an extract of the detailed format of Quarter and Year ended 31 March 2025 of Consolidated and Standalone Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarter and Year ended Financial Results are available on the websites of the BSE and NSE at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on Company's website at www.sandhargroup.com

For Sandhar Technologies Limited

PUBLIC NOTICE

Plot No C -11/3 , DLF Phase -1 , Gurgaon was registered in the name of Mr Mahendra Prakash Kalra S/o Late

Hukum Chand Kalra R/o C-11/3 , DLF

hase -1 ,Gurgaon who has expired on

25/1/25 leaving behind a registered Will in favour of Mrs Indu Kalra and accordingly the name of Mrs Indu Kalra

s being noted in DLF's record in respec

any objection to this, he or she may approach M/s DLF Ltd or the

captioned plot. If anybody has

/s DLF Ltd or the within 21 days of

Kapil Kalra C-11/3, DLF Phase -1

हनुमान मंदिर के पास, ग्राम- लाडो सराय,

गदाईपुर, दक्षिणी दिल्ली-110 030

Gurgaon 9810054101

Place: Gurugram (Haryana) Date: 22 May 2025

JAYANT DAVAR Chairman, Managing Director and Chief Executive Officer DIN: 00100801

SANDHAR TECHNOLOGIES LIMITED

CIN: L74999DL1987PLC029553 Regd. Office: B - 6/20, L.S.C. Safdarjung Enclave, New Delhi 110029 Tel: 0124 - 4518900, E-mail: investors@sandhar.in, Website: www.sandhargroup.com

वडर होम फाइनेस लिमिटेड **WONDER**

कॉर्पोरेट ऑफिस : 620, छठवीं मंजिल, नॉर्थ ब्लॉक, वर्ल्ड ट्रेड पार्क, मालवीय नगर, जेएलएन रोड, जयपुर- 302017, टेलीफोन: 0141- 4750000

सिक्युरिटाईजेशन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अन्तर्गत मांग सूचना पत्र

आस्तियों का प्रतिभृमिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002'' की धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिन का नोटिस दिया गया था। नोटिस के अनुसार यदि ऋणी /गारण्टर 60 दिवस के अंदर बकाया ऋण राशि जमा नहीं कराते हैं तो ऋण की वसली बंधक सम्पत्ति क नीलाम करके की जायेगी। डिमाण्ड नोटिस की तामील ना होने के कारण नोटिस की छायाप्रति बंधक सम्पत्ति पर चस्पा की जा चकी है। अत: आपको यह सूचित किया जाता है कि नोटिस प्रकाशित दिनांक से 60 दिन के अन्दर-अन्दर निम्न तालिका के अनुसार रूपया तथा भविष्य का ब्याज, वसुली में होने वाला खर्चा जमा कराये अन्यथा एक्ट की धारा 13 (4) एवं 14 के प्रावधानों के अन्तर्गत निम्न सुची के अनुसार साम्यिक बंधक सम्पत्ति का भौतिक कब्जा लेने एवं इसे नीलामी कर ऋण राशि की वसुली कराने के लिए प्राधिकृत अधिकारी स्वतंत्र होंगे ।

ऋणी ⁄सहऋणी ⁄बंधककर्ता ⁄गारंटर का नाम एवं ऋण खाता संख्या	धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस की दिनांक व राशि	बंधक सम्पत्ति का विवरण				
(ऋण खाता सख्या) LN34032IP21- 22005597, श्री सुनील कुमार (ऋणी एवं बंधककर्ता), श्रीमती मोना अरोडा (सहऋणी), श्रीमत प्रेम लता (सहऋणी एवं बंधककर्ता), श्री विपिन कश्यप (गारंटर)	14-05-2025 Rs. 5,80,293.10 पांच लाख अस्सी हजार दो सौ तिरानवे रूपये एवं दस पैसे मात्र 12-05-2025 तक	श्री सुनील कुमार एवं श्रीमती प्रेमलता की संपत्ति के सभी अंग स्थित खसरा नं. 884, श्रीनाथ नगर, ग्राम अहदमपुर कदाच, परगना, ज्वालापुर, तहसील एंव जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड, 249407, क्षेत्रफल लगभग 2245.32 वर्गफीट				
(ऋण खाता संख्या) LN34079HP24- 25024019, श्री श्याम पुकार पासवान पुत्र राज कुमार पासवान (ऋणी एवं बंधककर्ता), श्रीमती श्यामपती देवी पत्नी राजकुमार पासवान (सहऋणी)	14-05-2025 Rs. 13,95,787.00 तेरह लाख पिच्यानवे हजार सात सौ सतासी रूपये मात्र 12-05-2025 तक	श्री श्याम पुकार पासवान की संपत्ति के सभी अंग स्थित खसरा नं. 19, 384, 378, 388, 389, 390, 391, 394, 395, 396, 398, 398 ग्राम श्रीरामपुर स्थित, रूदपुर, उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड, 263160, क्षेत्रफल लगभग 1089 वर्गफीट				
दिनांकः २२-०५-२०२५ स्थानः उत्तराखण्ड प्राधिकृत अधिकारी वंडर होम फाइनेंस लिमिटेड						

बजाज हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड FINSERV कार्पोरेट कार्यालय : सेरेब्रम आईटी पार्क बी–2 बिल्डिंग, 5वां तल, कल्याणी नगर, पुणे, महाराष्ट्र – 411 व शाखा कार्यालय : 14वीं मंजिल अग्रवाल मेट्रो हाइट्स नेताजी सुमाष पैलेस पीतमपुरा नई दिल्ली–110034 कब्जा सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8-(1) एवं वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की घारा 13(4) के अंतर्गत (परिशिष्ट-IV) जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने मैसर्स बजाज हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड (बीएचएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों का प्रतिमृतिकर

एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारों 13 (2 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कर्जदार(रों) / सह कर्जदार(रों) / गारंटर(रों) को नीचे दिए विवरण के अनुसार मांग सुचना। जारी की थीं, जिनमें उनसे सूचना में वर्णित बकाया राशि का भुगतान उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी कर्जदार/सह कर्जदार/गारंटर उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतदद्वारा कर्जदार(रॉ)/सह कर्जदार(रॉ)/ गारंटर(रॉ) और जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने मैसर्स बजाज हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड की ओर से उक्त नियमावली के नियम 8(1) के साथ पठित उक्त कर्जदार(रों) / गारंटर(रों) को विशेष रूप से तथा जनसाधारण को सामान्य रूप से इस संपत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेत सावधान किया जाता है और संपरित के संबंध में कोई भी संव्यवहार कर्जदारों पर बीएचएफएल की इसमें वर्णित राशि(यों) तथा उस पर भावी ब्याज के प्रथम प्रभार के अधीन होगा।

1. राहुल तोमर (ज्वापकती) 2. कनिका भाटिया (सह -ज्वापकती) औ- 6 प्रथम तल सामने की और अशोका एन्कलेव, मेन सेक्टर-35, फरीदाबाद, अशेकार के कवर्ड एरिया 1000 वर्ग फीट, कार निर्माण—121003 शाखाः दिल्ली लैन सं. H401HHL0984160 और लेका विवरण इस प्रकार है. पूर्ण दूसरी मंजिल, बिना छत के अधिकार के कबर्ड एरिया 1000 वर्ग फीट, कार कार हिरयाणा—121003 शाखाः दिल्ली लैन सं. H401HHL0984160 और लेका विवरण इस प्रकार है. पूर्ण दूसरी मंजिल, बिना छत के अधिकार के प्रेस के अधिकार के प्री सं. बी 127, खसरा सं. बसरा सं. बसरा सं. बसरा सं. वसरा प्रमा प्रत्य के अधिकार के प्रेस का वह समस्त माग एवं अंश का				
1. राहुल तोमर (ज्वापकती) 2. कनिका भाटिया (सह -ज्वापकती) औ- 6 प्रथम तल सामने की और अशोका एन्लेव, मेन सेक्टर-35, फरीदाबाद, अर्था कि, पहली मंजिल, बिना छत के अधिकार के, कवर्ड एरिया 1000 वर्ग फीट, क्वालीस लाख साठ हजार कर कर्मा के अधिकार के, कवर्ड एरिया 1000 वर्ग फीट, क्वालीस लाख साठ हजार हिरयाणा-121003 शाखाः दिल्ली लैन सं. H401HHL0984160 और लेक्स प्रथम तक्काहम (ज्वापकती) 2. सुसान अब्राहम (ज्वापकती) 2. सुसान अब्राहम (ज्वापकती) 2. सुसान अब्राहम (ज्वापकती) 3. सुसीन अब्राहम (ज्वापकती) 2. सुसान अब्राहम (ज्वापकती) 3. सुसीन अब्राहम (ज्वापकती) 4. सुसीन अव्राहम (ज्वापकती) 5. सुसीन अव्राहम (ज्वापकती) 6. वर्ग मीटर), गांव पालम, कॉलोनी महावीर एन्लेस हजार साठ कर क्वापकती के अधिकार के प्रथम तक्काहम (ज्वापकती) 7. क्वालीस लाख ज्वालीस लाख		अचल सम्पत्ति का विवरण		कब्जे की तिथि
भिक्ता श्रिक्श अब्राहम (उचारकता) 2. सुसान अब्राहम (सह-उचारकता), निवासी: संपूर्ण द्वितीय तल बिना छत के अधिकार के, संपत्ति संख्या की—127, खसरा संख्या 80/15/2, माप 100 वर्ष गण्ड (8.3. 80 थां जी महावीर एन्तलेव, नई दिल्ली—110045 शाखा: दिल्ली लैन नं. H401HHL0244903 और H401HL10244146 1. देविड एन टूबैंग (उचारकता), 2. वेनेंग टूब्बंग (पर निर्मित पलेट, 64 वर्ष गण्ड, यानी 55.5104 वर्ष मात्र) 20-05-2025 और (सह-उचारकता), यु/जी/एफ बी/एस आरजेड जी—686 ख. सं. 50/6, गली सं. 1 राज नगर—।। सिट्ट ट्वलेंग एक्लेंग अप्ते के अधिकार प्रोक्त के अधिकार के कपरी भूतल (पर निर्मित संख्या आर जेड-686,(एस-जी)-3) में से, विल्ली—110077 पर्वाला के अधिकार प्रावलिंग के साथ, खसरा संख्या अर जेड-686,(एस-जी)-3) में से, विल्ली—110077 प्रावल कॉलोनी के क्षेत्र में स्थित पूर्वः अन्य संपत्ति / प्लॉट संख्या मात्र)		अंश जिसका विवरण इस प्रकार है: प्लॉट संख्या—डी6, पहली मंजिल, बिना छत के अधिकार के, कवर्ड एरिया 1000 वर्ग फीट, प्लॉट एरिया 444 वर्ग गज, अशोका एन्क्लेव	হ. 40,60,498 /— (হ. चালীম্ম লাজ মাত हजार	20-05-2025
नियाना । प्रकार है: बिना छत के अधिकार के ऊपरी भूराल रा. हेविड एल दुधैंग (उद्यारकर्ता), 2. वेनेंग दुधांग (पर निर्मित पलैट, 64 वर्ग गज, यानी 53.5104 वर्ग मी., तिक्षा अर जेड-656,(एस+जी+3) में से, विल्ली – 110077 संख्या 50/9 में से, ग्राम पालम राज नगर-।। पालम कॉलोनी के क्षेत्र में स्थित, पूर्व: अन्य संपत्ति / प्लॉट संख्या मात्र)	मि401HL/1046485 1. सुबीन अब्राहम (उधारकरा) 2. सुसान अब्राहम (सह-उधारकरा), निवासीः संपूर्ण द्वितीय तल बिना छत/ टरेस के अधिकार के, पी सं. बी 127, खसरा सं. 80/15/2, गांव पालम, महावीर एन्वलेव, नई दिल्ली — 110045	विवरण इस प्रकार है: पूर्ण दूसरी मंजिल, त के अधिकार के संपत्ति संख्या बी—127, संख्या 80/15/2, माप 100 वर्ग गज (83. मीटर), गांव पालम, कॉलोनी मझवीर नई दिल्ली—110045	रु. 42,19,731 / — (रु. ब्यालीस लाख उन्लीस हजार सात सौ इकतीस मात्र)	20-05-2025
जी—655, पश्चिमः अन्य संपत्ति. उत्तरः गली, दक्षिणः अन्य का फ्लैट	HAUNIL-10244146 1. डेविड एल टुबैंग (उघारकर्ता), 2. वेनॅग टुब्यंग पर निर्मित पर्ल (सह—उघारकर्ता), यू/जी/एफ बी/एस आरजेड जी—686 ख. सं. 50/9, गली सं. 1 राज नगर—।।, स्टिल्ट पलोर प	prर है: बिना छत के अधिकार के ऊपरी भूतल नैट, 64 वर्ग गज, यानी 53.5104 वर्ग मी., संख्या आर जे ड 6 56,(एस+जी+3) में से, र एक छोटी कार पार्किंग के साथ, खसरा	रु. 33,01,663 / — (रु. तैतीस लाख एक हजार छह सौ तिरेसठ	20-05-2025

इण्डियन ओवरसीज़ बेंक 🕅 Indian Overseas Bank

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग केंद्रीय कार्यालय : 763, अण्णा सालै, चेन्नै – 600 002

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक निम्नलिखित के लिए बोली लगाने हेतु आमंत्रित

गवर्नमेंट ई-मार्केट पोर्टल - सेंट्ल बैंक डिजिटल करेंसी सोल्यशन की आपूर्ति, कार्यान्वयन और रखरखाव

ली संख्या : जीईएम/ 2025/ बी/ 6254507 दिनांकित : 20/05/2025

उपर्युक्त निविदा के लिए जीईएम दस्तावेज उल्लिखित वेबसाइटों पर www.iob.in एवं www.gem.gov.in उपलब्ध है, जहाँ से डाउनलोड किया जा सकता है । निविदा का विवरण और भविष्य में किए जाने वाले किसी भी संशोधन के लिए, उक्त वेबसाइट www.gem.gov.in का संदर्भ लेते रहें।

OSBI

सूचना सूरक्षा विभाग, भारतीय स्टेट बैंक, ग्लोबल आईटी-सेन्टर, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई – 400614

प्रस्ताव हेतु अनुरोध संदर्भ: SBI/GITC/Information Security Department/2025/2026/1339

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा केंद्रीकृत इंटरनेट एक्सेस (सीआईए) और निजी एप्लिकेशन एक्सेस प्रबंधन वे लिए हाइब्रिड सुरक्षा सेवा एज (एच-एसएसई) समाधान और प्रबंधित सेवाओं की खरीद के लिए भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) पात्र बोलीदाताओं से बोलियां आमंत्रित की जाती हैं. विवरण के लिए कृपया <u>https://bank.sbi</u> और <u>https://etender.sbi/SBI</u> पर प्रोक्योरमेंट न्यूज देखें. आरएफपी के डाउनलोड का आरंभ : 23.05.2025 से

पूर्व–योग्यता पात्रता दस्तावेजों के लिए बोलियां जमा कराने की अंतिम तिथि व समय : 31.05.2025

को शाम 05:00 बजे तक स्थान: नवी मंबई दिनांक: 23.05.2025

वरिष्ठ उपाध्यक्ष (आईएस एवं एसपी) सूचना सुरक्षा विभाग

एल&टी फाइनान्स लिमिटेड (पहले एल&टी होल्डिंग्स फायनांस लि.) पंजीकृत कार्यालयः एल&टी फाइनान्स लिमिटेड, बृंदावन बिल्डिंग, प्लॉट नं. 177, कलीना, सीएसटी रोड, मर्सडीज़ शोरूम के पास, सांताक्रुज़ (पूर्व), मुंबई 400 098 सीआईएन नं.: L67120MH2008PLC181833

शाखा कार्यालय: Ghaziabad

&T Finance

सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एंफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत (आगे से कानून कहा गया है)

हमने आप सभी (कर्जदारों, सहकर्जदारों और गारंटरों) को रजिस्टर्ड डाक एक्नॉलेज ड्यू के माध्यम से कानून की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना जारी की है, क्यों कि आपने बकाया राशियों का भूगतान नहीं किया है, और इस बकाया राशि को चुकता करने में विफल रहे हैं और इसे नजरअंदाज किया है. परिणामस्वरूप नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा जारी किए गए आस्ति वर्गीकरण से संबंधित दिशानिर्देशों के अनुसार बुक ऑफ अकाउंट में लोन अकाउंट को नॉन-परफॉर्मिंग असेट (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है. सूचना ''बिना प्राप्ति के लौट आई है'' और इसलिए अब हम कानून की धारा 13(2) के तहत सभी को यह सूचना जारी कर रहे हैं और एतदद्वारा नीचे सूचना में संलग्न राशि एल & टी फाइनान्स लिमिटेड (पूर्व की, एल &टी होल्डिंग्स फाइनान्स लि,) इस पेपर अधिसूचना के दिनांक से 60 दिन की अवधि के अंदर मांग सूचना के दिनांक से लेकर भूगतान तक के आगामी ब्याज सहित चुकाने का आवाहन कर रहे हैं. यदि आप इस सूचना के अनुसार अपनी देयताओं को पूरा नहीं करते हैं तो हम कानून की धारा 13(4)या धारा 14 के तहत दिए गए सभी या किसी अधिकारों का प्रयोग करने के लिए विवश होंगे. ''यह कानून और/या समय समय पर लागू कानून के अनुसार हमें उपलब्ध किन्हीं भी अधिकारों के पूर्वाग्रह के बिना होगा

ऋण खाता	कर्जदारों और	मांग सूचना दिनांक / एनपीए दिनांक / बकायाराशि		अचल संपत्ति (मॉर्टगेज्ड) का वर्णन				
संख्या	सहकर्जदारों का नाम	एनपीए दिनांक	बकाया राशि (₹) यथा			5.41 4.11 (16.15) 4.4.1		
H15368140	सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड (इसकी निदेशक शिवानी	माँग सूचना दिनांक : 09/05/2025 एनपीए दिनांक : 02/04/2025	रु. 1,37,85,553.11/- (एक करोड़ सँतीस लाख पवासी हजार पाँच सौ तरेपन रुपए और स्यारह पैसे) दिनांक 06/05/2025 को		रेत क्षेत्र (में स्थित पूर्व पश्चिम उत्तर	श, जिसकी संख्या एसएफ-153 है, जिसके क्षेत्रफल की माप 153.45 वर्ग मीटर 86.47 वर्ग मीटर है, जो तहसील एवं जिला गाजियाबाद की शास्त्री नगर नामक है. दलॉट नं. 153ए दलॉट नं. 154 सड़क 25' 'प्लॉट नं. 182		

प्राधिकृत अधिकारी दिनांक: 23.05.2025 स्थान: गाजियाबाद



जय भारत मारूति लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः पेस सिटी ॥, मोहम्मदपुर झारसा खंडसा गाँव के पास, सेक्टर-36 गुरूग्राम, हरियाणा- 122001 फोन नः 011—26427104; फैक्स नः 011—26427100; वेबसाइट: www.jbmgroup.com CIN No. L29130HR1987PLC130020

31 मार्च 2025 को समाप्त तिमाही और वार्षिक के लिये अनअंकेक्षित और अंकेक्षित परिणामों का विवरण (रू लाख में

III			एकल		समेकित						
क्र सं:	विवरण	31/03/2025 को समाप्त तिमाही	31/03/2025 को समाप्त 12 महीने	31/03/2024 को समाप्त तिमाही	31/03/2025 को समाप्त तिमाही	31/03/2025 को समाप्त 12 महीने	31/03/2024 को समाप्त तिमाही				
		अनअंकेक्षित	अंकेक्षित	अनअंकेक्षित	अनअंकेक्षित	अंकेक्षित	अनअंकेक्षित				
1.	प्रचलनों से कूल आय	61,128.57	2,29,295.46	60,009.17	61,128.57	2,29,295.46	60,009.17				
2.	अवधि के लिये निवल लाम/(हानि) (कर, विशिष्ट और/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	2,914.25	4,749.58	1,523.34	3,046.27	4,906.09	1,538.52				
3.	अवधि के लिये कर पूर्व निवल लाभ/(हानि) (विशिष्ट और/अथवा असाधारण मदों के उपरांत)	2,914.25	4,749.58	1,523.34	3,046.27	4,906.09	1,538.52				
4.	अवधि के लिये कर पश्चात निवल लाम/(हानि) (विशिष्ट और/ अथवा असाधारण मदों के उपरांत)	1,960.25	3,179.61	1,112.03	2,056.17	3,291.27	1,122.81				
5.	अवधि के लिये समग्र आय [लाम/(हानि) शामिल करते हुए अवधि के लिए (कर उपरांत) और अन्य समग्र आय (कर उपरांत)]	2,072.29	3,039.03	1,481.45	2,165.90	3,149.47	1,491.99				
6.	इक्विटी अंश पूंजी	2,165.00	2,165.00	2,165.00	2,165.00	2,165.00	2,165.00				
7.	आरक्षित पिछले वर्ष के अंकेक्षित तुलन पत्र में दर्शाए अनुसार	53,754.67	53,754.67	51,473.39	54,096.68	54,096.68	51,704.96				
8.	प्रति शेयर आय (प्रत्येक रू 2/-) (वार्षिकृत नहीं) (जारी और स्थगित प्रचालनों के लिये) नोट—(ग)										
	क) मूलभूत	1.81	2.94	1.03	1.90	3.04	1.04				
	ख) मिश्रित	1.81	2.94	1.03	1.90	3.04	1.04				
<u> </u>	·										

क) उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अधीन शेयर बाज़ारों के पास दायर किये गये तिमाही और वार्षिक के लिये अनअंकेक्षित और अंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रपत्र का सार है। 31 मार्च, 2025 को समाप्त तिमाही / वार्षिक वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रपन्न शेयर बाज़ारों NSE, BSE की वेबसाइटों, www.nseindia.com और www.bseindia.com तथा कंपनी की वेबसाइट www.jbmgroup.com पर उपलब्ध है।

ख) 22 मई, 2025 को आयोजित अपनी बैठक में बोर्ड ने समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2025 के लिए 35% अर्थात रू. 0.70 प्रति शेयर (प्रत्येक रू 2 /- के पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर पर) के लाभांश की सिफारिश की है।

ग) कंपनी के निदेशक मंडल ने 08 अगस्त, 2023 को हुई अपनी बैठक में प्रत्येक 5/— रू अंकित मूल्य के पूर्ण भुगतान वाले मौजूदा इक्विटी शेयर के प्रत्येक 2/— रू अंकित मुल्य के पूर्ण भुगतान वाले इक्विटी शेयर में उप–विभाजन करने की सिफारिश की है। उपरोक्त उप–विभाजन का कंपनी के शेयरधारकों ने 16 सितंबर, 2023 को हुई अपनी वार्षिक आम समा में अनुमोदन कर दिया। शेयरों के विभाजन के अनुसार कंपनी के इक्विटी शेयर 4,33,00,000/- से बढ़कर, प्रत्येक 2/- रू अंकित मुल्य के साथ, 10,82,50,000/- हो गए हैं। एकल और समेकित वित्तीय परिणामों की पूर्व की अवधियों के लिए बेसिक और डाइल्यूटिड ईपीएस का इंड ए एस 33 "प्रति शेयर आय'' के अनुसार प्रत्येक रू 2 / — के अंकित मूल्य पर विचार करते हुए पुनः उल्लेख किया गया है।



स्थान : गुरूग्राम कंपनी की वेबसाइट पर परिणाम देखने के लिए क्यूआर कोड को स्कैन करें।

बोर्ड के आदेशानसार कृते जय भारत मारुति लिमिटेड हस्ताः/-एस. के. आर्य

अध्यक्ष

शाखा : डी७, भू-तल, लाजपत नगर पुलिस स्टेशन के सामने, लाजपत नगर -॥, नई दिल्ली-११० ०२४, ई-मेल :lajpatnagar@nainitalbank.co.in

इे-नीलामी सुचना

सरफाऐसी अधिनियम 2002 के तहत ऑनलाइन ई-नीलामी माध्यम से आस्तियों की बिक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9 के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं प्रतिभृति हित अधिनियम, २००२ के प्रवर्तन तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, २००२ के नियम ३ के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के

उपयोग में नैनीताल बैंक का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते कर्जदारों 1. मेसर्स कुन<mark>फायाकुन. 2. मो. इब्राहीम अंसारी पुत्र राजदीन अंसारी (पार्टनर) 3.हजारा खातून पत्नी मोहम्मद इब्राहिम अंसारी</mark> (पार्टनर) तथा जमानतियों 1. राम हरि शर्मा पुत्र राम बृक्ष शर्मा, 2. शबाब खान पुत्र मोहम्मद नब्बी से 30.11.2023 तक सूचना में उल्लिखित राशि रु. 17,64,168.00 (रुपये सन्नह लाख चौसठ हजार एक सौ अङ्सठ मात्र) तथा 01.12.2023 से भावी ब्याज तथा प्रतिमृत आस्तियों की सुरक्षा पर हुए अन्य व्ययों का कथित सूचना की प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर भूगतान करने को कहते हुए 30.11.2023 को एक माँग सूचना जारी की थी। जबकि कर्जदार कथित माँग सूचना में माँगी गयी राशि का बैंक को पुनर्भुगतान करने में असफल रहे, अतः बैंक ने कथित नियमों के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में बैंक के बकायों की वसूली हेतु उसकी बिक्री के अधिकार सहित यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति पर 02.05.2024 भौतिक कब्जा कर लिया है। अधोहस्ताक्षरी धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में अधोलिखित सम्पत्ति(यों) की बिक्री द्वारा बैंक के बकायों की वसूली का प्रस्ताव करता है। तदनुसार, एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार एवं जमानती(यों) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूति लेनदार के पास बंधक नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका रचनात्मक / भौतिक कब्जा नैनीताल बैंक लिमिटेड के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा किया गया है, की बिक्री भावी ब्याज, लागत तथा व्ययों सहित नीचे तालिका मे वर्णित राशि के लिए नैनीताल बैंक लिमिटेड अर्थात प्रतिभूत लेनदार के बकायों की वसूली हेतु **"जहाँ है जैसे है", "जो है यही है", "जो भी है वहीं है" तथा "उपचार रहित"** आधार पर की जायेगी। एतद्वारा आपको रूचित किया जाता है कि हम वेबसाइट <u>https://sarfaesi.auctiontiger.net</u> के माध्यम से सार्वजनिक ई—नीलामी संचालित करने जा रहे हैं।

धारा 13(2) के तहत सूचना की तिथि ईएमडी जमा करने की तिथि व समय कर्जदार(रों)/जमानती(यों) ईएमडी/बिड राशि जमा सम्पत्ति का विवरण विशि तथा कुल बकाया, वसूली को घटाकर, यदि कोई हो ईएमडी करने हेतु खाता संख्या का नाम तथा पता -नीलामी की तिथि व समय तिथि व समय बोली बढ़ाने की न्यूनतम राशि बंधक अचल सम्पत्ति के सभी भाग व खाता संख्या : ईएमडी जमा करने की 1. मैसर्स कुन्फायाकुन (कर्जदार), 30.11.2023 भौतिक ₹ 9,82,000.00 038420920000025 अन्तिम तिथि हिस्से जो कि प्लॉट सं. 41 और 42. खसरा .2025 03.00 P पंजीकृत कार्यालय- 16-ए, भू-तल, (रुपये नौ लाख 02.05.2024 आईएफएससी कोड : 09.06.2025 सं. 384, राहुल एन्क्लेव, ग्राम- पावी बयासी हजार मात्र) शाहपुर जाट, जंगी हाउस के पास, नई NTBL0DEL038 सायं ०४:०० बजे तक सादकपुर परगना लोनी, तहसील और जिला ₹ 17,64,168.00 अथवा दि नैनीताल दिल्ली-110049 2. मोहम्मद इब्राहिम ₹ 98,000.00 10.00 AM गाजियाबाद में स्थित है। क्षेत्रफल 105 वर्ग ई-नीलामी : (रुपये सत्रह लाख चौसठ बैंक लि० के नाम से अंसारी पुत्र राजदीन अंसारी (कर्जदार), यार्डस। सम्पत्ति उप निबन्धक- चतुर्थ 10.06.2025 (रुपये अड्डानवे एंव दिल्ली में हजार एक सौ निवासी एम-165, ग्राम- लाडो सराय, गाजियाबाद के कार्यालय में दस्तावेज सं. 11.00 बजे पूर्वा हजार मात्र) देय डिमाण्ड ड्राफ्ट अड्सठ मात्र) एवं ब्याज दक्षिणी दिल्ली- 110 030 १०९३, पुस्तक सं. १, खंड सं. १६८४१, पृष्ठ के माध्यम से बैंक की से 1.00 बजे अप ₹ 50,000.00 तथा अन्य खर्चे तक (5 मिनट सं. 193 से 216, दिनांक 18.01.2011 को लाजपत नगर शाखा 3. हजारा खातून पत्नी मोहम्मद इब्राहिम (रुपये पचास प्रत्येक के असीमित में जमा किया जाये मोहम्मद इब्राहिम अंसारी पुत्र राजदीन अंसारी अंसारी (कर्जदार), निवासी एम-165,

4. राम हरि शर्मा पुत्र राम बुक्ष शर्मा (जमानती), निवासी १९०, ग्राम- शाहपुर जाट , दिल्ली-११००४९ 5.शबाब खान पुत्र मोहम्मद नब्बी (जमानती), निवासी मकान नंबर-३११ए साहपुरजट, दक्षिणी दिल्ली-110 0 49

के पक्ष में सेल डीड के द्वारा दर्ज है। सीमाएं - उत्तर में अन्य प्लॉट, दक्षिण में अन्य प्लॉट, पूरब में 15 फीट

ई–नीलामी बिक्री कार्यवाही में भाग लेने के लिए नियम एवं शर्तो सहित अधिक विवरण के लिए इच्छुक सभी भागीदारों/बोलीदाताओं से वेबसाइट <u>https://sarfaesi.auctiontiger.net</u> तथा_ www.nainitalbank.co.in (बैंक की साइट) देखने का निवेदन किया जाता है और अधिक जानकारी, नियम एवं शर्ते, ई-नीलामी में भाग लेने की प्रक्रिया के लिए बैंक के सेवा प्रदाता ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, श्री राम प्रसाद, सम्पर्क नम्बर 8000023297 तथा ई-मेल : ramprasad@auctiontiger.net पर सम्पर्क करने की सलाह दी जाती है।

यह प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, २००२ के तहत कर्जदार/जमानती/बंधककर्ता के लिए सांविधिक 15 दिवसीय बिक्री सूचना है।

दिनांक: 23.05.2025 स्थान : लाजपत नगर

रास्ता, पश्चिम में अन्य प्लॉट।

प्राधिक्रत अधिकारी, दि नैनीताल बैंक लिमिटेड

विस्तार सहित)

हजार मात्र)